



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 24] नई दिल्ली, जून 26 — जुलाई 2, 2016, शनिवार/आषाढ़ 5—आषाढ़ 11, 1938

No. 24] NEW DELHI, JUNE 26—JULY 2, 2016, SATURDAY/ASADHA 5—ASADHA 11, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक् संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 जून, 2016

सा.का.नि.113.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्वारा विदेश मंत्रालय (सुरक्षा सहायक पहले सुरक्षा गार्ड के रूप में नामनिर्दिष्ट) भर्ती नियम, 1972 का संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-

- (i) ये नियम विदेश मंत्रालय (सुरक्षा सहायक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 कहे जाएंगे।
(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।
- विदेश मंत्रालय (सुरक्षा सहायक) भर्ती नियम, 1972 की अनुसूची में, स्तंभ 11(i) और (ii) के स्थान पर निम्नलिखित होगा:-
(i) उपलब्ध पदों के 50% को सशस्त्र पुलिस/राज्य पुलिस बल के पात्र कांस्टेबल/हेड कांस्टेबलों से भरा जाएगा। उपर्युक्त 50% में से, प्रत्येक वर्ष तीन स्लॉटों को विदेश मंत्रालय में कार्यरत संवर्ग-बाह्य श्रेणी 'ग' के कर्मचारियों अर्थात् आईटीडीसी के पूर्व कर्मचारियों तथा विदेश मंत्रालय के छात्रावास कर्मचारियों तथा विदेश मंत्रालय के कैटीन कर्मचारियों में से पात्र व्यक्तियों की भर्ती करके भरा जाएगा। विदेश मंत्रालय के श्रेणी ग के कर्मचारियों के मामले में लागू पात्रता शर्तें

उन पर भी लागू होंगी। यदि पात्र व्यक्ति उपलब्ध नहीं हों तो रिक्तियों को सशस्त्र पुलिस/राज्य पुलिस बल के व्यक्तियों से भरा जाएगा।

और

- (ii) उपलब्ध पदों के शेष 50% को विदेश मंत्रालय के पात्र समूह 'ग' कर्मचारियों से भरा जाएगा, जिनमें ऐसे कनिष्ठ पुस्तकालय परिचारक और सहायक भी शामिल होंगे, जिन्होंने कम से कम दसवीं कक्षा पास की हो और 3 वर्षों की सेवा पूरी की हो और जिनकी आयु 52 वर्ष से कम हो।

ऐसे कर्मचारियों द्वारा नैमित्तिक श्रमिकों (अस्थाई हैसियत में) के रूप में की गई सेवा के 50 प्रतिशत को भी अर्हकारी सेवा के लिए जोड़ा जाएगा।

[सं. क्यू/पीई/6618/70/2015]

सुनील कुमार शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 15th June, 2016

G.S.R. 113 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of External Affairs (Security Assistants earlier designated as Security Guards) Recruitment Rules, 1972.

1. (i) These Rules may be called the Ministry of External Affairs, (Security Assistants) Recruitment (Amendment) Rules, 2016.

(ii) They shall come into force on the date of their publication to the Official Gazette.

2. In the Schedule to Ministry of External Affairs (Security Assistants) Recruitment Rules, 1972, in column 11 (i) and (ii) following shall be substituted:-

- (i) 50% of the available posts will be filled up from eligible Constable/Head Constables from Armed Police/State Police Force.

Out of the above 50 per cent, every year 3 slots shall be filled up by recruiting eligible persons from amongst the ex-cadre Group C officials working in MEA, viz., Ex-ITDC employees and MEA Hostel employees and MEA Canteen employees. The eligibility conditions applicable in the case of Group C employees of Ministry of External Affairs will also apply to them. In case suitable persons are not available the vacancies shall be filled up by persons from Armed Police/State Police Force.

AND

- (ii) Another 50% of the available posts will be filled up by eligible Group "C" employees of the Ministry of External Affairs including Junior Library Attendants and Helpers who are at least tenth class pass and have completed 3 years service and are less than 52 years old.

The 50 per cent of the service rendered as Casual Labourers (with temporary status) by such employees will also count towards qualifying service.

[No. Q/PE/6618/70/2015]

SUNIL KUMAR SHARMA, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 जून, 2016

सा.का.नि. 114.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1989 को, जहाँ तक उनका संबंध चिकित्सा अभिलेख अधिकारी के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में चिकित्सा अभिलेख अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डॉ. राममनोहर लोहिया अस्पताल, चिकित्सा अभिलेख अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड, और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन और वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड ग्रेड वेतन और वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
चिकित्सा अभिलेख अधिकारी	1* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा' समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2; वेतनमान 9300 -34800 रु.+ ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलेन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलेन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलेन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा	<p>प्रोन्नति : वेतन बैंड -1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन - 2400 रु. में डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ऐसे चिकित्सा अभिलेख तकनीशियन में से प्रोन्नति, जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
<p>विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:—</p> <ol style="list-style-type: none"> चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष उप निदेशक, चिकित्सा अस्पताल अनुभाग, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय नई दिल्ली - सदस्य उप निदेशक, प्रशासन, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य 	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-11018/03/2006- आर आर]

संजय पंत, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 16th June, 2016

G.S.R.114.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 1989 in so far as they relate to the post of Medical Record Officer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Medical Record Officer, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, namely:—

- 1. Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, Medical Record Officer (Group 'B' posts), Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- 2. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.**— The number of the said posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

- 3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

- 4. Disqualification.** – No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

- 6. Saving .-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Medical Record Officer	01* (2016) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non- Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band 2, Rs. 9300-34800 plus 4200 Grade pay	Selection.

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: From the post of Medical Records Technician of Dr. Ram Manohar Lohia Hospital in pay band -1, Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 2400 with ten years of regular service in the grade.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the first, January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.</p>	<p>Departmental Promotion Committee consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi —Chairman 2. Deputy Director Medical Hospital Section, Directorate General of Health Services —Member 3. Deputy Director Administration, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi —Member 	<p>Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.</p>

[F. No. A-11018/03/2006-RR]

SANJAY PANT, Under Secy.

(केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना)

नई दिल्ली, 22 जून, 2016

सा.का.नि.115.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली (वर्ग 'IV' समूह) भर्ती नियम, 1974 को, जहां तक उनका संबंध पैकर, दफ्तरी, क्लीनर और चपरासी के पद से है, और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुंबई (श्रमिक/मजदूर) भर्ती नियम, 1985; केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुंबई (दिल्ली के बाहर संगठन में समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1986 को, जहां तक उनका संबंध पैकर और चपरासी/चपरासी सह औषधालय परिचारक के पद से है, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली (समूह 'घ') पद भर्ती नियम, 1990 को, जहां तक उनका संबंध दफ्तरी और क्लीनर के पद से है, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (दफ्तरी) भर्ती नियम, 1992 और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना चपरासी (समूह 'घ') भर्ती नियम, 1992 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना प्रभाग में मल्टी टास्किंग स्टाफ के पद पर भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन, मल्टी टास्किंग स्टाफ, भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान .—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति .—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या उपयुक्त है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है :

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मल्टी टास्किंग स्टाफ	535* (2016) सीजीएचएस अहमदाबाद-6 सीजीएचएस इलाहाबाद-18 सीजीएचएस बंगलुरु-16 सीजीएचएस भोपाल-3 सीजीएचएस भुवनेश्वर-3 सीजीएचएस चंडीगढ़-2 सीजीएचएस चेन्नई-31 सीजीएचएस देहरादून-3 सीजीएचएस गुवाहाटी-5 सीजीएचएस हैदराबाद-33 सीजीएचएस जबलपुर-8 सीजीएचएस जयपुर-9 सीजीएचएस जम्मू-1 सीजीएचएस कानपुर-22 सीजीएचएस कोलकाता-41 सीजीएचएस लखनऊ-10 सीजीएचएस मेरठ-13 सीजीएचएस मुंबई-55 सीजीएचएस नागपुर-16 सीजीएचएस दिल्ली-199 सीजीएचएस पटना-15 सीजीएचएस पुणे-14 सीजीएचएस रांची-3 सीजीएचएस शिलांग-2 सीजीएचएस त्रिवेन्द्रम-7 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसर्चितीय	वेतन बैंड-1, 5200 - 20200 रु. और ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	18 वर्ष से 27 वर्ष की आयु तक नोट 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (किन्तु असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल तथा स्पीति जिले तथा चम्बा-जिलों के पांगी उप प्रभाग, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख नहीं) नोट 2 : रोजगार कार्यालय द्वारा की गई भर्ती के मामले में आयु सीमा निर्धारण करने की निर्णायक तारीख वह तारीख होगी जब रोजगार कार्यालय को नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिक्षा की अवधि यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
10वीं या समकक्ष उत्तीर्ण	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण के लिए) में निम्नलिखित शामिल है :-</p> <p>केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन, दिल्ली के मामले :</p> <p>(1) अपर निदेशक, के. स्वा. योजना (मुख्यालय), के.स.स्वा.यो. —अध्यक्ष</p> <p>(2) संयुक्त निदेशक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (मुख्यालय), केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना —सदस्य</p> <p>(3) उपनिदेशक (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय —सदस्य</p> <p>(4) प्रशासनिक अधिकारी केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना (मुख्यालय) —सदस्य</p> <p>दिल्ली से बाहर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन के मामले में :</p> <p>(1) संबंधित इकाई के अपर निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक —अध्यक्ष</p> <p>अथवा उप-निदेशक</p> <p>(2) संबंधित इकाई के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी —सदस्य</p> <p>(3) उपनिदेशक (प्रशा.), अथवा सहायक निदेशक (प्रशा.) —सदस्य</p> <p>स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय</p> <p>(4) संबंधित इकाई के प्रशासनिक अधिकारी यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी अथवा केन्द्र सरकार अथवा अन्य विभाग अथवा प्रभाग के किसी अन्य समूह 'क' अधिकारी न होने पर । —सदस्य</p>	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/05/2015-सीजीएचएस-1]

धर्मेन्द्र सिंह, अवर सचिव

(CENTRAL GOVERNMENT HEALTH SCHEME DIVISION)

New Delhi, the 22nd June, 2016

G.S.R.115.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Government Health Scheme (Class-IV Posts) Recruitment Rules, 1974 in so far as it relate to the posts of Packer, Daftry, Cleaner and Peons, the Central Government Health Scheme, Bombay (Labourer/Mazdoor) Recruitment Rules, 1985, the Central Government Health Scheme (Group 'D' posts in Organisation Outside Delhi) Recruitment Rules, 1986 in so far as it relate to the post of Packer and Peon/Peon-cum-Dispensary Attendant, the Central Government Health Scheme, Delhi (Group 'D') Post Recruitment Rules, 1990 in so far as it relate to the post of Daftry and Cleaner, the Central Government Health Scheme (Daftry) Recruitment Rules, 1992 and the Central Government Health Scheme, Peon (Group 'D'), Recruitment Rules, 1992, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi-Tasking Staff in the Ministry of Health and Family Welfare, Central Government Health Scheme Division namely :—

- Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Government Health Scheme Organisation, Multi-Tasking Staff, Recruitment Rules, 2016.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette .
- Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number posts, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- Disqualification.** – No person, -
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living , or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale
(1)	(2)	(3)	(4)
Multi-Tasking Staff	535*(2016) CGHS Ahmedabad-6 CGHS Allahabad-18 CGHS Bangalore-16 CGHS Bhopal-3 CGHS Bhubaneswar-3 CGHS Chandigarh-2 CGHS Chennai-31 CGHS Dehradun-3 CGHS Guwahati-5 CGHS Hyderabad-33 CGHS Jabalpur-8 CGHS Jaipur-9 CGHS Jammu-1 CGHS Kanpur-22 CGHS Kolkata-41 CGHS Lucknow-10 CGHS Meerut-13 CGHS Mumbai-55 CGHS Nagpur-16 CGHS Delhi-199 CGHS Patna-15 CGHS Pune-14 CGHS Ranchi-3 CGHS Shillong-2 CGHS Trivendrum-7 * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted Non-Ministerial.	Pay band-1, ₹ 5200 - 20200 with grade pay of ₹ 1800/-.

Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(5)	(6)
Not applicable	Between 18-25 years. Note 1 : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications in India (and not the closing date for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti districts and Pangri sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). Note 2 : In the case of recruitment made through employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
10 th class or equivalent pass	Not applicable.	Two years	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion or by deputation or by absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making the recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	<p>Departmental Promotion Committee (For confirmation) consisting of :</p> <p>In the case of Central Government Health Scheme Organisation, Delhi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Additional Director (Head Quarter) Central Government —Chairman Health Scheme 2. Joint Director, Central Government Health Scheme —Member (Head Quarter), Central Government Health Scheme 3. Deputy Director (Administration), Directorate General —Member of Health Services 4. Administrative Officer Central Government Health Scheme (Head Quarter) —Member <p>In the case of Central Government Health Scheme Organisation, outside Delhi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Additional Director or Joint Director or Deputy Director —Chairman of the concerned Unit 2. Medical Officer, In-charge of the concerned Unit —Member 3. Deputy Director (Administration) or Assistant Director —Member (Admn.), Directorate General of Health Services 4. Administrative Officer of concerned Unit. If there is no Administrative Officer, any other Group 'A' Officer of Central Government of other Department or Division —Member 	Not applicable.

[F. No. A-12018/05/2015-CGHS-I]

DHARMINDER SINGH, Under Secy.

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 23 जून, 2016

सा.नि.का.116.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रभावी केन्द्रीय मत्स्यपालन कर्मी संस्थान, (श्रेणी) III और श्रेणी IV पद) भर्ती नियम, 1968, को, जहाँ तक उनका संबंध कलाकार-सह-फोटोग्राफर के पद से है अधिक्रांत करते हुए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, केन्द्रीय मत्स्य नौचालन और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोच्चि में कलाकार-सह-फोटोग्राफर की भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पशुपालन डेयरी और मत्स्यपालन विभाग केन्द्रीय मत्स्यपालन, नौचालन और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोच्चि, कलाकार-सह-फोटोग्राफर, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान:— पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि:— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता:— वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति:—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति:—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कलाकार - सह - फोटोग्राफर	* 01 (2016) * कार्यभार के आधार	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित,	वेतन बैंड-1, 5200-20200रू. + ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता	18 और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों की दशा में	आवश्यक: i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण

	पर परिवर्तन किया जा सकता है।	अनुसूचिकीय	2800 रु.		<p>शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है।)</p> <p>टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा-जिले के पांगी उपखण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p> <p>टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>	<p>ii) किसी मान्यताप्राप्त कला विद्यालय से डिप्लोमा;</p> <p>iii) फोटोग्राफी में प्रवीणता तथा अधिमानतः वैज्ञानिक फोटोकॉपी और प्रयोगशाला उपकरणों के सेवारत उच्च श्रेणी फोटोग्राफी में अनुभव।</p>
--	------------------------------	------------	----------	--	--	--

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति, आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	<p>सीधे भर्ती द्वारा।</p> <p>टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी-</p> <p>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हताएं और विहित अनुभव है।</p>	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह "ग" विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित होंगे :- 1. निदेशक, केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं प्रशिक्षण संस्थान, कोच्चि —अध्यक्ष 2. अवर सचिव मत्स्य, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली —सदस्य 3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय मत्स्यपालन, नौचालन इंजीनियरी और प्रशिक्षण संस्थान, कोच्चि —सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 3-45/2014-प्रशा-V]

योगेन्द्र कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

New Delhi, the 23rd June, 2016

G.S.R.116.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Institute of Fisheries Operatives (Class III and Class IV Posts) Recruitment Rules, 1968, in so far as they relate to the post of Artist-cum-Photographer, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Artist-cum-Photographer in the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin, namely:-

1. Short title and commencement:- (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin, Artist-cum-Photographer, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale. - The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. - The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax:- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving:- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Artist-cum-Photographer	*01 (2016) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-1. Rs. 5200-20200/- plus grade pay of Rs. 2800/-	Not applicable	Between 18 and 27 years. (relaxable upto forty years in case Government servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note:1- The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh., Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note:2- In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit, shall be last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Essential: (i) Matriculation pass from a recognised Board; (ii) Diploma of a recognised School of Arts; (iii) proficiency in photography and experience in high class studio serving preferably in scientific photography and handling laboratory instruments.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of the promotees	Period of probation if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	By direct recruitment Note : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under circumstances for a duration	Not applicable	Group C Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of : (1) Director, Central	Not applicable.

		of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Govt. (a)(i) holding analogous posts on regular basis or (b) Possessing qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).		Institute of Fisheries Nautical Engineering & Training - Chairman; (2) Under Secretary (Fy), Department of Animal Husbandry Dairying & Fisheries, Krishi Bhawan, New Delhi - Member; (3) Senior Administrative Officer, Central Institute of Fisheries Nautical Engineering & Training - Member;	
--	--	---	--	--	--

[F. No. 3-45/2014-Admn.-V]

YOGINDER KUMAR, Under Secy.

**संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)**

नई दिल्ली, 29 जून, 2016

सा.का.नि.117.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग के निदेशक (स्टाफ संबंध) के भर्ती नियम, 2002, को रद्द करते हैं जो भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 105 द्वारा दिनांक 13 मार्च, 2002 को प्रकाशित हुए थे।

[फा. सं. ए-35014/01/2015-प्रशासन-II]

निठाली राम, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Telecommunications)

New Delhi, the 29th June, 2016

G.S.R. 117 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby rescinds the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Telecommunications' Director (Staff Relations) Recruitment Rules, 2002 which were published in Gazette of India vide notification number G.S.R. 105 dated 13th March, 2002.

[F. No. A-35014/01/2015-Admn.-II]

NITHALI RAM, Under Secy.